

Roll No.-----

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक

Question Booklet No.

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्नपुस्तिका सिरीज
Question Booklet Series

A

L.L.B (Fifth Semester) Examination, 2021

LLB512

PRINCIPLES OF TAXATION LAW

(ONLY FOR EX AND B.P. STUDENTS)

Time : 1:30 Hours

Maximum Marks-100

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

- निर्देश : —
1. परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सिरीज का विवरण यथास्थान सही— सही भरें, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
 2. इस प्रश्नपुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं तो उसके द्वारा हल किये गये प्रथमतः यथा निर्दिष्ट प्रश्नोत्तरों का ही मूल्यांकन किया जायेगा।
 3. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
 4. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
 5. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
 6. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी प्रश्नपुस्तिका बुकलेट एवं ओ०एम०आर० शीट पृथक—पृथक उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
 7. निगेटिव मार्किंग नहीं है।

महत्वपूर्ण : — प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।

808

1. In India Income tax was introduced for the first time in:
(A) 1726
(B) 1833
(C) 1860
(D) 1909
2. Who of the following introduced income tax first time in India
(A) James Wilson
(B) Lord Canning
(C) Lord Thomas
(D) Lord Robert
3. Which of the following is an ancient book on taxation?
(A) Manu Smriti
(B) Arthashastra
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
4. Kautilya's concept of taxation is based on:
(A) Equity
(B) Justice
(C) Necessity
(D) All the above
5. Income tax law was not amended in:
(A) 1918
(B) 1922
(C) 1923
(D) 1961
6. Income tax Act 1961 came into force from:
(A) January 1, 1961
(B) March 1, 1961
(C) June 1, 1961
(D) None of the above
7. Which of the following part of the Indian constitution contains provision relating to finance etc.?
(A) XVI
(B) XIV
(C) XV
(D) XII
8. "No tax shall be levied or collected except by authority of law." Which of the following Article provides this:
(A) 264
(B) 265
(C) 266
(D) 267
1. भारत में सर्वप्रथम आयकर को प्रस्तुत किया गया:
(A) 1726
(B) 1833
(C) 1860
(D) 1909
2. निम्न में से कौन भारत में सर्वप्रथम आयकर प्रस्तुत किया:
(A) जेम्स विल्सन
(B) लार्ड कनिंग
(C) लार्ड थामस
(D) लार्ड राबर्ट
3. निम्न में से कौन काराधान पर एक प्राचीन पुस्तक है:
(A) मनुस्मृति
(B) अर्थशास्त्र
(C) (A) और (B) दोनों
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
4. कौटिल्य का काराधान की संकल्पना आधारित है:
(A) साम्या
(B) न्याय
(C) आवश्यकता
(D) उपरोक्त सभी
5. आयकर विधि संशोधित नहीं हुई:
(A) 1918
(B) 1922
(C) 1923
(D) 1961
6. आयकर अधिनियम 1961 लागू हुआ:
(A) जनवरी 1, 1961
(B) मार्च 1, 1961
(C) जून 1, 1961
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
7. निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग वित्त आदि से सम्बन्धित उपबन्ध समाहित है:
(A) 16
(B) 14
(C) 15
(D) 12
8. "कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं" उक्त उपबन्ध किस अनुच्छेद में है :
(A) 264
(B) 265
(C) 266
(D) 267

9. Which of the following article of the Indian constitution deals with consolidated fund?
(A) 265
(B) 266
(C) 280
(D) 291
10. Which of the following Article of the Indian constitution deals with contingency fund?
(A) 264
(B) 364
(C) 182
(D) 267
11. Which of the following Article provides that Duty levied by the Union but collected and appropriated by the states?
(A) 267
(B) 268
(C) 268 A
(D) 270
12. Which of the following Article of the Indian constitution deals with surcharge?
(A) 280
(B) 281
(C) 273
(D) 271
13. Surcharge shall form the part of the:
(A) Consolidated fund
(B) Contingency fund
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
14. Which of the following Article deals with Grants in lieu of export duty:?
(A) 266
(B) 270
(C) 272
(D) 273
15. Which of the following Justice is not contained in the preamble of Indian constitution?
(A) Political
(B) Social
(C) Legal
(D) Economic

9. निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संचित निधि से सम्बन्धित है:
(A) 265
(B) 266
(C) 280
(D) 291
10. निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित है:
(A) 264
(B) 364
(C) 182
(D) 267
11. निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संघ द्वारा उद्घूहीत किए जाने वाले किन्तु राज्यो द्वारा संगृहीत और विनियोजित शुल्क:
(A) 267
(B) 268
(C) 268 A
(D) 270
12. निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिभार से सम्बन्धित है
(A) 280
(B) 281
(C) 273
(D) 271
13. अधिभार किस निधि का भाग है।
(A) संचित निधि
(B) आकस्मिक निधि
(C) (A) और (B) दोनों
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
14. निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान से सम्बन्धित है:
(A) 266
(B) 270
(C) 272
(D) 273
15. निम्न में से कौन सा न्याय भारतीय संविधान की उद्देशिया में समाहित नहीं है:
(A) राजनैतिक
(B) सामाजिक
(C) विधिक
(D) आर्थिक

- | | |
|--|---|
| <p>16. Which of the following Article deals with grants from Union to certain states?
(A) 265
(B) 270
(C) 274
(D) 275</p> <p>17. Which of the following Article deals with Tax on Professions?
(A) 269
(B) 273
(C) 279
(D) None of the above</p> <p>18. Which of the following article deals with net proceeds?
(A) 259
(B) 263
(C) 279
(D) 277</p> <p>19. Whose Certificate shall be final regarding Net Proceeds:
(A) Speaker of the Lok Sabha
(B) Finance minister
(C) Finance secretary
(D) None of the above</p> <p>20. What is not included in Net Proceeds:
(A) Cost of collection
(B) Tax
(C) Duty
(D) None of the above</p> <p>21. Which of the following Article deals with certification by the comptroller and Auditor General of India?
(A) 268 A
(B) 279
(C) 280
(D) 263</p> <p>22. Which of the following Article deals with the finance commission?
(A) 280
(B) 275
(C) 270
(D) 269 A</p> <p>23. Which of the following Article deals with exemption of property of the Union from state taxation:
(A) 282
(B) 288
(C) 289
(D) 285</p> | <p>16. निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से सम्बन्धित है:
(A) 265
(B) 270
(C) 274
(D) 275</p> <p>17. निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वृत्तियों पर कर से सम्बन्धित है:
(A) 269
(B) 273
(C) 279
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> <p>18. निम्न में से कौन सा अनुच्छेद "शुद्ध आगम" से सम्बन्धित है:
(A) 259
(B) 263
(C) 279
(D) 277</p> <p>19. शुद्ध आगम के सम्बन्ध में किसका प्रमाण पत्र अन्तिम होगा
(A) लोक सभा का स्पीकर
(B) वित्तमंत्री
(C) वित्त सचिव
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> <p>20. शुद्ध आगम में क्या सम्मिलित नहीं है:
(A) संग्रहण का खर्चा
(B) कर
(C) शुल्क
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> <p>21. निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रमाणन से सम्बन्धित है:
(A) 268 A
(B) 279
(C) 280
(D) 263</p> <p>22. निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से सम्बन्धित है:
(A) 280
(B) 275
(C) 270
(D) 269 A</p> <p>23. निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संघ की सम्पत्ति को राज्य के कराधान से छूट से सम्बन्धित है:
(A) 282
(B) 288
(C) 289
(D) 285</p> |
|--|---|

24. Whom of the following does not have exemption from tax
(A) Electricity
(B) Military salary
(C) Medical Instrument
(D) None of the above
25. Which of the following is not a direct tax?
(A) Income tax
(B) Corporate tax
(C) Wealth tax
(D) None of the above
26. Which of the following is a direct tax?
(A) Service Tax
(B) VAT
(C) Gift Tax
(D) None of the above
27. Illegally levied tax must be:
(A) Returned
(B) Seized
(C) Set off
(D) None of the above
28. New India Industries vs Union of India case is related to:
(A) Tax
(B) Duty
(C) Illegally Tax levied
(D) Illegally duty levied
29. Which of the following article is omitted by the constitution (one hundred and first Amendment) Act. 2016:
(A) 268 A
(B) 268 B
(C) 264
(D) 279
30. Which of the following Article is Amended in 1956, 1982 and 2000?
(A) 268A
(B) 269
(C) 269 A
(D) 268
31. Which of the following Article is instituted in 2016:?
(A) 268 A
(B) 269 A
(C) 279 A
(D) All the above
24. निम्न में से किसे करो से छूट नहीं है:
(A) विद्युत
(B) सैन्य वेतन
(C) चिकित्सा उपकरण
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
25. निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है:
(A) आयकर
(B) निगम कर
(C) धन कर
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
26. निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है:
(A) सेवा कर
(B) वैट
(C) दानकर
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
27. अवैध रूप से उद्ग्रहीत कर होना चाहिए
(A) वापस
(B) जब्त
(C) मुजरा
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
28. न्यू इण्डिया इन्डस्ट्रीज बनाम भारत संघ का मामला सम्बन्धित है:
(A) कर
(B) शुल्क
(C) अवैध रूप से उद्ग्रहीत कर
(D) अवैध रूप से उद्ग्रहीत शुल्क
29. निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम 2016 द्वारा विलोपित कर दिया गया:
(A) 268 A
(B) 268 B
(C) 264
(D) 279
30. निम्न में कौन सा अनुच्छेद 1956, 1982 एवं 2000 में संशोधित किया गया
(A) 268 A
(B) 269
(C) 269 A
(D) 268
31. निम्न में कौन सा अनुच्छेद 2016 में प्रतिस्थापित किया गया:
(A) 268 A
(B) 269 A
(C) 279 A
(D) उपरोक्त सभी

32. The constitution (one hundred) and first Amendment) Act 2016. came into force on:
 (A) Sept 16,2016
 (B) Sept 11,2016
 (C) Sept 16,2017
 (D) Sept 11,2017
33. Final Authority for borrowing is:
 (A) Parliament
 (B) Finance minister
 (C) Lok Sabha
 (D) Finance secretary
34. Which of the following Article deals with borrowing?
 (A) 292
 (B) 293
 (C) 294
 (D) Both (A) and (B)
35. Right to property is
 (A) Fundamental Rights
 (B) Constitutional Right
 (C) Statutory Right
 (D) None of the above
36. Which of the following part of the constitution contain Right to Property?
 (A) XII
 (B) XIII
 (C) XIV
 (D) XV
37. Which constitutional Amendment regulates Right to property
 (A) 41
 (B) 42
 (C) 43
 (D) 44
38. K.T. plantation PVT. LTD. Vs. State of Kerala case is related to
 (A) Tax
 (B) Duty
 (C) Property
 (D) None of the above
39. Tukaram Kanna Joshi Vs. M.I.D.C. case is related to
 (A) Article 265
 (B) Article 279
 (C) Article 280
 (D) Article 300A
32. संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम 2016 प्रवर्तित हुआ:
 (A) सितम्बर 16,2016
 (B) सितम्बर 11,2016
 (C) सितम्बर 16,2017
 (D) सितम्बर 11,2017
33. ऋण हेतु अन्तिम प्राधिकारी है
 (A) संसद
 (B) वित्त मंत्री
 (C) लोक सभा
 (D) वित्त सचिव
34. निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ऋण लेने से सम्बन्धित है
 (A) 292
 (B) 293
 (C) 294
 (D) (A) और (B) दोनों
35. सम्पत्ति का अधिकार है
 (A) मूल अधिकार
 (B) संवैधानिक अधिकार
 (C) सांविधिक अधिकार
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
36. सम्पत्ति का अधिकार संविधान के किस भाग में है:
 (A) 12
 (B) 13
 (C) 14
 (D) 15
37. किस संविधान संशोधन द्वारा सम्पत्ति का अधिकार विनियमित किया गया:
 (A) 41
 (B) 42
 (C) 43
 (D) 44
38. के०टी० प्लान्टेशन प्रा०लि० बनाम केरल राज्य का मामला सम्बन्धित है
 (A) कर
 (B) शुल्क
 (C) सम्पत्ति
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
39. तुकाराम कन्ना जोशी बनाम एम०आई०डी०सी० का मामला सम्बन्धित है
 (A) अनु० 265
 (B) अनु० 279
 (C) अनु० 280
 (D) अनु० 300A

40. Bishamber Vs. state of U.P. is related to
 (A) Article 300A
 (B) Article 300
 (C) Article 278
 (D) Article 277
41. Which of the following Tax is no more Tax?
 (A) Service Tax
 (B) VAT
 (C) Sale Tax
 (D) All the above
42. Which of the following Article has been repeated?
 (A) 278
 (B) 268A
 (C) 291
 (D) All the above
43. Tax is:
 (A) A Compulsory financial charge
 (B) A Voluntarily Financial charge
 (C) Both (A) & (B)
 (D) None of the above
44. Most Countries Imposes Tax on:
 (A) An Individuals Income
 (B) Corporate Income
 (C) Both (A) and (B)
 (D) None of the above
45. Pay as 404 earn is the basis of:
 (A) Income Tax
 (B) Sale Tax
 (C) VAT
 (D) Service Tax
46. What is negative Income Tax
 (A) Progressive Income Tax system
 (B) Developed Income Tax system
 (C) Capitalist Income Tax system
 (D) None of the above
47. The capital gain is a gain on:
 (A) Sale of capital assets
 (B) Interest
 (C) Compensation
 (D) None of the above
48. Corporate Tax refers to:
 (A) Income Tax
 (B) Capital Tax
 (C) Both (A) & (B)
 (D) None of the above

40. विशम्बर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला सम्बन्धित है:
 (A) अनु० 300A
 (B) अनु० 300
 (C) अनु० 278
 (D) अनु० 277
41. निम्न में से कौन सा कर समाप्त हो गया है:
 (A) सेवा कर
 (B) वैट
 (C) विक्री कर
 (D) उपरोक्त सभी
42. निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निरसित हो गया है:
 (A) 278
 (B) 268A
 (C) 291
 (D) उपरोक्त सभी
43. कर है
 (A) एक अनिवार्य वित्तीय अधिभार
 (B) एक स्वैच्छिक वित्तीय अधिभार
 (C) (A) और (B) दोनों
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
44. अधिकांश देशों में कर अधिरोपित किया जाता है:
 (A) व्यक्तिगत आय
 (B) निगम आय
 (C) (A) और (B) दोनों
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
45. 'जितना कमाई उतना भुगतान आधार है:
 (A) आयकर
 (B) बिक्रीकर
 (C) वैट
 (D) सेवा कर
46. नकारात्मक आयकर क्या है
 (A) प्रगतिशील आयकर प्रणाली
 (B) विकसित आयकर प्रणाली
 (C) पूँजीवादी आयकर प्रणाली
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
47. पूँजी लाभ ऐसा लाभ है
 (A) जो पूँजीगत सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त हो
 (B) जो ब्याज से प्राप्त हो
 (C) जो प्रति कर से प्राप्त हो
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
48. निगम कर में सन्दर्भित है
 (A) आयकर
 (B) पूँजी कर
 (C) (A) और (B) दोनों
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

49. A wealth Tax is levied on the total value of:
 (A) Personal Assets
 (B) Collective Assets
 (C) Family Assets
 (D) None of the above
50. Personal Asset Includes
 (A) Bank Deposit
 (B) Real Estate
 (C) Insurance
 (D) All the above
51. Tax arises on the death of an Individual is called
 (A) Inheritance Tax
 (B) Estate Tax
 (C) Both (A) and (B)
 (D) None of the above
52. A value added Tax is also known as
 (A) Goods and service Tax
 (B) Single Business Tax
 (C) Both (A) and (B)
 (D) None of the above
53. Value added Tax is equivalent to:
 (A) Income Tax
 (B) Sale Tax
 (C) Corporate Tax
 (D) Wealth Tax
54. Tax system is a system:
 (A) Static
 (B) Changing
 (C) Necessary
 (D) Both (B) and (C)
55. Which of the following is an Indirect Tax :
 (A) Income Tax
 (B) Wealth Tax
 (C) Corporate Tax
 (D) None of the above
56. Excise duty is:
 (A) Direct Tax
 (B) Indirect Tax
 (C) Less
 (D) None of the above
57. Excise duty is imposed upon goods during the process of their
 (A) Manufacture
 (B) Production
 (C) Distribution
 (D) All the above
49. धनकर किसके कुल मूल्य पर उद्ग्रहीत होता है:
 (A) व्यक्तिगत एसेट्स
 (B) सामूहिक एसेट्स
 (C) पारिवारिक एसेट्स
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
50. व्यक्तिगत एसेट्स में सम्मिलित है
 (A) बैंक डिपोजिट
 (B) रियल स्टेट
 (C) बीमा
 (D) उपरोक्त सभी
51. किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उत्पन्न कर कहलाता है
 (A) उत्तराधिकार कर
 (B) सम्पदा कर
 (C) (A) और (B) दोनों
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
52. मूल्य वर्धित कर किसके रूप में भी ज्ञात है
 (A) वस्तु एवं सेवा कर
 (B) एकल व्यापार कर
 (C) (A) और (B) दोनों
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
53. मूल्य वर्धित कर समान है
 (A) आयकर
 (B) बिक्रीकर
 (C) निगम कर
 (D) धनकर
54. कर प्रणाली एक प्रणाली है
 (A) स्थिर
 (B) परिवर्तनशील
 (C) आवश्यक
 (D) (B) और (C) दोनों
55. निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है:
 (A) आयकर
 (B) धनकर
 (C) निगम कर
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
56. उत्पाद शुल्क है
 (A) प्रत्यक्ष कर
 (B) अप्रत्यक्ष कर
 (C) उपकर
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
57. उत्पाद शुल्क माल के किस प्रक्रम पर अधिरोपित किया जाता है:
 (A) निर्माण
 (B) उत्पादन
 (C) वितरण
 (D) उपरोक्त सभी

58. Excise duty first time introduced in
(A) England
(B) France
(C) U.S.A.
(D) India
59. Who of the following devised the excise duty
(A) John Major
(B) John Pym
(C) Churchill
(D) Kenning
60. First time excise duty was imposed in :
(A) 1643
(B) 1768
(C) 1850
(D) 1942
61. Custom duty is a tax which is imposed on:
(A) Import
(B) Export
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
62. Which of the following have a negative effect on the economic growth:
(A) Tariffs
(B) Free trade
(C) Reduction of trade barriers
(D) none of the above
63. Sin Tax is based on:
(A) Social Engineering
(B) Volkgeist
(C) Social solidarity
(D) None of the above
64. Which of the following is not a subject matter of sin Tax
(A) Wine
(B) Tabacoo
(C) Pornography
(D) None of the above
65. Carbon Tax may be Imposed on
(A) Non renewable fuels
(B) Renewable Fuels
(C) Tabacoo
(D) Wine
66. The Tariffs discourage
(A) Trade
(B) Development
(C) Economy
(D) None of the above
58. उत्पाद शुल्क सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया:
(A) इंग्लैण्ड
(B) फ्रांस
(C) यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
(D) भारत
59. निम्न में से कौन उत्पाद शुल्क को प्रवर्तित किया:
(A) जान मेजर
(B) जान पिम
(C) चर्चिल
(D) केनिंग
60. उत्पाद शुल्क सर्वप्रथम कब अधिरोपित किया गया:
(A) 1643
(B) 1768
(C) 1850
(D) 1942
61. सीमा शुल्क एक ऐसा कर है जो अधिरोपित किया जाता है:
(A) आयात
(B) निर्यात
(C) (A) और (B) दोनों
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
62. निम्न में से किसका प्रभाव आर्थिक विकास पर नकारात्मक होता है:
(A) टेरिफ
(B) मुक्त व्यापार
(C) व्यापार अवरोधों में कमी
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
63. पाप कर आधारित है:
(A) सामाजिक अभियान्त्रिकी
(B) लोक चेतना
(C) सामाजिक समेकता
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
64. निम्न में से क्या पाप कर की विषयवस्तु नहीं है:
(A) शराब
(B) तम्बाकू
(C) अश्लील साहित्य
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
65. निम्न में से किस पर कार्बन कर अधिरोपित किया जा सकता है:
(A) गैर नवीनीकृत ईंधन
(B) नवीनीकृत ईंधन
(C) तम्बाकू
(D) शराब
66. टेरिफ्स हतोत्साहित करता है:
(A) व्यापार
(B) विकास
(C) अर्थव्यवस्था
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

67. Black money means:
 (A) Funds earned without tax
 (B) Unaccounted money
 (C) Both (A) and (B)
 (D) none of the above
68. Total amount of black money deposited in foreign banks by Indians is:
 (A) 1/5 of GDP
 (B) 2/5 of GDP
 (C) 3/5 of GDP
 (D) Unknown
69. Black money is accumulated by:
 (A) Criminals
 (B) Smugglers
 (C) Hoarders
 (D) All the above
70. In a writ petition in the supreme court Black Money is estimated even larger than:
 (A) 300 lakh crores
 (B) 500 lakh crores
 (C) 5000 lakh crores
 (D) 8000 lakh crores
71. As per C.B.I. in 2012 Total Black Money deposited in foreign banks is:
 (A) 300 Billion Dollar
 (B) 500 Billion Dollar
 (C) 1.06 Trillion Dollar
 (D) 2 Billion Dollar
72. Who of the following filed a writ petition in the supreme court to help bring back black money
 (A) Ram Jethmalani
 (B) Harish Salve
 (C) Kapil Sibbal
 (D) Abhishek Manu Singhvi
73. In 2011 SIT for Black Money was headed by:
 (A) Justice B.P. Jeevan Reddy
 (B) Justice T.S. Thakur
 (C) Justice Deepak Mishra
 (D) Justice Gyan Sudha Mishra
74. Who heard the case relating to Black Money:
 (A) Justice B. Sudarshan Reddy
 (B) Justice S.S. Nijjar
 (C) Both (A) and (B)
 (D) None of the above

67. काला धन से अभिप्रेत है
 (A) बिना कर के अर्जित धनराशि
 (B) अलेखांकित धन
 (C) (A) और (B) दोनों
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
68. विदेशी बैंकों में भारतीय द्वारा जमा काला धन है:
 (A) जी०डी०पी० 1/5
 (B) जी०डी०पी० 2/5
 (C) जी०डी०पी० 3/5
 (D) अज्ञात
69. काला धन एकत्र किया जाता है:
 (A) अपराधी द्वारा
 (B) स्मगलर द्वारा
 (C) जमाखोर द्वारा
 (D) उपरोक्त सभी
70. उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका में आकलित किया गया है कि काला धन से भी अधिक है:
 (A) तीन सौ लाख करोड़
 (B) पाँच सौ लाख करोड़
 (C) पाँच हजार लाख करोड़
 (D) आठ हजार लाख करोड़
71. सी०बी०आई० के अनुसार 2012 में कुल कितना काला धन विदेशी बैंक में जमा है:
 (A) 300 विलियन डालर
 (B) 500 विलियन डालर
 (C) 1.06 ट्रिलियन डालर
 (D) 2 विलियन डालर
72. निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय में काला धन वापस लाने में सहायता हेतु याचिका योजित की:
 (A) राम जेठमलानी
 (B) हरीश साल्वे
 (C) कपिल सिब्बल
 (D) अभिषेक मनु सिंघवी
73. 2011 में काला धन पर गठित एस०आई०टी० की अध्यक्षता की गई:
 (A) न्यायमूर्ति बी०पी० जीवन रेड्डी
 (B) न्यायमूर्ति टी०एस०ठाकुर
 (C) न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा
 (D) न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा
74. काला धन से सम्बन्धित मामले की सुनवाई की
 (A) न्यायमूर्ति बी० सुदर्शन रेड्डी
 (B) न्यायमूर्ति एस०एस० निज्जर
 (C) (A) और (B) दोनों
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

75. Who of the following was arrested for Black Money
(A) Hasan Ali
(B) Saif Ali
(C) Salman Khan
(D) All the above
76. Which of the following court have Jurisdiction to hear tax dispute:
(A) Supreme court
(B) High court
(C) Tax Tribunal
(D) All the above
77. The order of the Income Tax appellate Tribunal is applicable before the High court on the issue of:
(A) Substantial question of law
(B) Substantial question of fact
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
78. A Tax dispute can be brought before the tribunal or court by way of
(A) Application
(B) Suit
(C) Petition
(D) Appeal
79. Which of the following decision of the tax authority is applicable?
(A) Final decision to levy tax
(B) Preliminary decision to levy tax
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
80. Which of the following is the apex body of the Income Tax Department?
(A) C.B.D.T.
(B) Revenue Secretary
(C) Cabinet Secretary
(D) None of the above
81. The Income Tax Department formed in:
(A) 1860
(B) 1935
(C) 1947
(D) 1950
82. Who of the following is the chairman of CBDT
(A) Pramod Chand Modi
(B) Rakesh Asthana
(C) S.K. Das
(D) Rajeev Gaba
75. निम्न में से किसे काला धन के लिए गिरफ्तार किया गया:
(A) हसन अली
(B) साँफ अली
(C) सलमान खान
(D) उपरोक्त सभी
76. निम्न में से किस न्यायालय को कर विवाद की सुनवाई की अधिकारिता है:
(A) उच्चतम न्यायालय
(B) उच्च न्यायालय
(C) कर न्यायाधिकरण
(D) उपरोक्त सभी
77. आयकर अपील न्यायाधिकरण के आदेश से उच्च न्यायालय की अपील की जा सकती है
(A) विधि के मौलिक प्रश्न पर
(B) तथ्य के मौलिक प्रश्न पर
(C) (A) और (B) दोनों
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
78. न्यायाधिकरण या न्यायालय के सम्मुख कर विवाद माध्यम से लाया जा सकता है:
(A) आवेदन
(B) वाद
(C) याचिका
(D) अपील
79. कर प्राधिकारी के किस निर्णय की अपील होगी:
(A) कर उद्ग्रहीत करने के अन्तिम निर्णय
(B) कर उद्ग्रहीत करने का प्रारम्भिक निर्णय
(C) (A) और (B) दोनों
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
80. निम्न में से कौन आयकर विभाग सर्वोच्च निकाय है:
(A) सी०बी०डी०टी०
(B) राजस्व सचिव
(C) कैबिनेट सचिव
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
81. आयकर विभाग का गठन हुआ:
(A) 1860
(B) 1935
(C) 1947
(D) 1950
82. निम्न में से कौन सी०बी०डी०टी० का अध्यक्ष है
(A) प्रमोद चन्द मोदी
(B) राकेश अस्थाना
(C) एस०के० दास
(D) राजीव गाबा

83. Tax Evasion is
(A) A Criminal Activity
(B) An Illegal Activity
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
84. Tax avoidance is :
(A) A Crime
(B) A Tavy
(C) A Legal act
(D) None of the above
85. Tax evasion is an activity commonly associated with
(A) Formal economy
(B) Informal economy
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
86. Tax evasion is:
(A) Individual offence
(B) Corporate Practice
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
87. Penalty for not filling income tax return is:
(A) 5000 or more
(B) 10000 or more
(C) 20000 or more
(D) 50000 or more
88. Which of the following section of the Income Tax Act Deals with defaulter:
(A) 140 B (1)
(B) 140 C (2)
(C) 140 C (3)
(D) 140 A (1)
89. If a tax payer receives a demand notice asking for tax payment the tax payer has to pay the requisite amount in:
(A) 30 days
(B) 60 days
(C) 90 days
(D) 120 days
90. Which of the following section deals with penalty for tax evasion?
(A) 271 (C)
(B) 271 (A)
(C) 271 (B)
(D) 271 (D)
91. Tax planning is a legal way of reducing:
(A) Income Tax
(B) Corporate Tax
(C) Sale Tax
(D) Service Tax
83. कर अपवंचन है
(A) एक आपराधिक गतिविधि
(B) एक अवैध गतिविधि
(C) (A) और (B) दोनों
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
84. कर परिहार है
(A) एक अपराध
(B) एक अपकृत्य
(C) एक वैध कृत्य
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
85. सामान्यतया कर अपवंचन की गतिविधि सहयुक्त होती है:
(A) औपचारिक अर्थव्यवस्था में
(B) अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में
(C) (A) और (B) दोनों में
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
86. कर अपवंचन है
(A) व्यक्तिगत अपराध
(B) निगम व्यवहार
(C) (A) और (B) दोनों
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
87. आयकर रिटर्न दाखिल न करने की शक्ति है
(A) पाँच हजार या अधिक
(B) दस हजार या अधिक
(C) बीस हजार या अधिक
(D) पचास हजार या अधिक
88. निम्न में से आयकर अधिनियम की कौन सी धारा डिफाल्टर से सम्बन्धित है:
(A) 140 B (1)
(B) 140 C (2)
(C) 140 C (3)
(D) 140 A (1)
89. यदि एक करदाता को कर भुगतान की डिमाण्ड नोटिस प्राप्त होती है तो करदाता अपेक्षित राशि जमा कर सकता है:
(A) 30 दिन में
(B) 60 दिन में
(C) 90 दिन में
(D) 120 दिन में
90. निम्न में से कौन सी धारा कर अपवंचन की शक्ति से सम्बन्धित है:
(A) 271 (ग)
(B) 271 (क)
(C) 271 (ख)
(D) 271 (द)
91. कर नियोजन कम करने का एक विधिक मार्ग है:
(A) आयकर
(B) निगम कर
(C) विक्रय कर
(D) सेवा कर

- | | |
|--|--|
| <p>92. Under which sections of the Income Tax Act can be deducted:</p> <p>(A) 80 C
(B) 80 E
(C) 80 M
(D) All the above</p> <p>93. The primary objective of the planning is</p> <p>(A) Economic stability
(B) Reduction of tax liability
(C) Growth of economy
(D) All the above</p> <p>94. Which of the following section of the Income Tax Act is omitted?</p> <p>(A) 80 F
(B) 80 H
(C) 80 J
(D) All the above</p> <p>95. Income Tax Act contains:</p> <p>(A) 298 section
(B) 398 section
(C) 300 section
(D) None of the above</p> <p>96. The Income Tax Act 1961 came into force on:</p> <p>(A) April 1, 1961
(B) April 1, 1962
(C) April 1, 1963
(D) April 1, 1964</p> <p>97. Which of the following section of the Income Tax Act defines Assessment year?</p> <p>(A) 2 (A)
(B) 2 (9A)
(C) 2 (10)
(D) 2 (11)</p> <p>98. 'Capital asset' means:</p> <p>(A) Jewellery
(B) Archaeological collects
(C) Paintings
(D) None of the above</p> <p>99. Income Includes:</p> <p>(A) Profit
(B) Dividend
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above</p> <p>100. Person Includes:</p> <p>(A) A Hindu undivided family
(B) A local authority
(C) A firm
(D) All the above</p> | <p>92. आयकर अधिनियम की किस धाराओं के अधीन कर में कटौती की जा सकती है:</p> <p>(A) 80 C
(B) 80 E
(C) 80 M
(D) उपरोक्त सभी</p> <p>93. कर नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य है:</p> <p>(A) आर्थिक स्थिरता
(B) कर दायित्व में कमी
(C) अर्थव्यवस्था का विकास
(D) उपरोक्त सभी</p> <p>94. आयकर अधिनियम की कौन सी धारा विलोपित है</p> <p>(A) 80 F
(B) 80 H
(C) 80 J
(D) उपरोक्त सभी</p> <p>95. आयकर अधिनियम में समाहित है:</p> <p>(A) 298 धारा
(B) 398 धारा
(C) 300 धारा
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> <p>96. आयकर अधिनियम 1961 प्रवर्तन में आया:</p> <p>(A) अप्रैल 1, 1961
(B) अप्रैल 1, 1962
(C) अप्रैल 1, 1963
(D) अप्रैल 1, 1964</p> <p>97. निम्न में से आयकर अधिनियम की कौन सी धारा निर्धारण वर्ष का परिभाषित करता है:</p> <p>(A) 2 (A)
(B) 2 (9A)
(C) 2 (10)
(D) 2 (11)</p> <p>98. कैपिटल एसेट से अभिप्रेत है</p> <p>(A) आभूषण
(B) पुरातात्विक संग्रह
(C) पेंटिंग
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> <p>99. आय में सम्मिलित है:</p> <p>(A) लाभ
(B) लाभांश
(C) (A) और (B) दोनों
(D) क</p> <p>100. व्यक्ति में सम्मिलित है:</p> <p>(A) एक हिन्दू अविभाजित परिवार
(B) एक स्थानीय प्राधिकारी
(C) एक फर्म
(D) उपरोक्त सभी</p> |
|--|--|

Rough Work / रफ कार्य

DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO

1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
2. **This Question Booklet contains 100 questions, out of which only 75 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the first most option will be considered valid.**
3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET).
6. After completion of examination please hand over the Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) to the Examiner before leaving the examination room.
7. There is no negative marking.

Note: On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.